

जैव विविधता प्रदर्शन केंद्र

चर्चा में क्यों?

ओडिशा सरकार भीतरकणिका में दंगमाल के नकित एक वशिव सतरीय प्रदर्शन केंद्र स्थापति करने जा रही है। इसके माध्यम से ओडिशा सरकार द्वारा मगरमच्छों के संरक्षण और समृद्ध जैव विविधता की रक्षा हेतु किये गए प्रयासों को दिखाया जाएगा।

प्रमुख बदि

- परियोजना को एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत अनुमोदति किया गया है, जिसकी अनुमानति लागत 3 करोड़ रुपए होगी।
- यह परियोजना पर्यटकों को आकर्षति करने के साथ-साथ वदियार्थियों के लिये पर्यावरण अध्ययन केंद्र के रूप में भी होगी।
- भीतरकणिका राज्य के बेहतरीन जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, जहाँ लगभग एक लाख पर्यटक प्रतविर्ष आते हैं और हाल ही में यहाँ आगंतुकों की संख्या में बढोतरी देखने को मल्लि है।
- यह पार्क अपने हरे मैंग्रोव, प्रवासी पक्षियों, कछुओं, एस्चुराइन मगरमच्छों और अनगनित क्रीक के लिये प्रसदिध है।
- ऐसा माना जाता है कि भीतरकणिका देश के 70% एस्चुराइन या खारे पानी के मगरमच्छों का आवास है। इसकी सुरक्षा का प्रयास 1975 में शुरू हुआ था।

जैव-कवच (Bio-shield)

- 1999 में जब ओडिशा का तटीय क्षेत्र भीषण चक्रवात की वजह से तहस-नहस हो गया था तो समृद्ध मैंग्रोव वनों ने जैव ढाल के रूप में कार्य किया था और मैंग्रोव-वैन क्षेत्रों में चक्रवात का बहुत कम प्रभाव पड़ा था।
- कालभिंजदिया द्वीप (Kalibhanjdia Island) 8.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भीतरकणिका के नज़दीक एक स्थान है। इसने बड़ी मात्रा में वदिशी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षति किया है, क्योंकि यहाँ दुनिया के कुल मैंग्रोव प्रजातियों का 70% हसिसा मौजूद है।